

SET-1

Series SSO/2

कोड नं.

57/2/1

Code No.

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 11 हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 11 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 26 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

जीव विज्ञान (सैद्धान्तिक)

BIOLOGY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

57/2/1

1

P.T.O.

सामान्य निर्देश :

- (i) प्रश्न-पत्र में पाँच खण्डों में 26 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) खण्ड A में प्रश्न संख्या 1 से 5 अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iii) खण्ड B में प्रश्न संख्या 6 से 10 लघु-उत्तरीय प्रश्न I प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (iv) खण्ड C में प्रश्न संख्या 11 से 22 लघु-उत्तरीय प्रश्न II प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (v) खण्ड D में प्रश्न संख्या 23 मूल्य आधारित प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vi) खण्ड E में प्रश्न संख्या 24 से 26 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, फिर भी 2 अंकों वाले एक प्रश्न में, 3 अंकों वाले एक प्रश्न में और 5 अंकों वाले सभी तीनों प्रश्नों में भीतरी चयन-विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को ऐसे प्रश्नों के दो विकल्पों में से कोई एक प्रश्न हल करना है।

General Instructions :

- (i) There are a total of 26 questions and five sections in the question paper. All questions are compulsory.
- (ii) Section A contains questions number 1 to 5, very short-answer type questions of 1 mark each.
- (iii) Section B contains questions number 6 to 10, short-answer type I questions of 2 marks each.
- (iv) Section C contains questions number 11 to 22, short-answer type II questions of 3 marks each.
- (v) Section D contains question number 23, value based question of 4 marks.

- (vi) Section E contains questions number **24** to **26**, long-answer type questions of 5 marks each.
- (vii) There is no overall choice in the question paper, however, an internal choice is provided in one question of **2** marks, one question of **3** marks and all the three questions of **5** marks. In these questions, an examinee is to attempt any one of the two given alternatives.

खण्ड क

SECTION A

1. अर्धसूत्री विभाजन (मीओसिस) किसी भी जीव के लैंगिक जीवन-चक्र में एक अति आवश्यक घटना है। दो कारण बताइए। 1
- Meiosis is an essential event in the sexual life cycle of any organism. Give two reasons.
2. अपहासित कूट और असंदिग्ध कूट में अंतर बताइए। 1
- How does a degenerate code differ from an unambiguous one ?
3. ओपेरिन और हाल्डेन द्वारा प्रतिपादित परिकल्पित प्रस्तावों को लिखिए। 1
- Write the hypothetical proposals put forth by Oparin and Haldane.
4. RNA पॉलिमरेज़ II का क्या कार्य होता है ? 1
- Write the function of RNA polymerase II.

5. “मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों ही हो सकता है ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए । 1

“Man can be a primary as well as a secondary consumer.” Justify this statement.

खण्ड ख

SECTION B

6. किसानों द्वारा संकर किस्मों के असंगजनिक (एपोमिक्टिक) बीजों के उपयोग करने के दो लाभों का सुझाव दीजिए । 2

Suggest two advantages to a farmer for using apomictic seeds of hybrid varieties.

7. एक आनुवंशिकविद् को परीक्षार्थ संकरण (टेस्ट क्रॉस) की कब आवश्यकता पड़ती है ? इस प्रक्रिया को किस प्रकार संपादित किया जाता है ? 2

When does a geneticist need to carry a test cross ? How is it carried ?

8. बहिःप्रजनन और बहिःसंकरण के बीच अंतर बताइए । 2

अथवा

घर पर बनाए फल के ज्यूस की तुलना में बोतलबंद फल के ज्यूस अधिक निर्मल होते हैं । स्पष्ट कीजिए । 2

Differentiate between outbreeding and outcrossing.

OR

Bottled fruit juices are clearer as compared to those made at home. Explain.

9. जब आप किसी उच्च तुंगता वाले स्थान पर भ्रमण करने जाते हो, तब आपको पहले दो दिन आराम करने की सलाह दी जाती है। कारण बताते हुए टिप्पणी कीजिए। 2

When you go for a trek/trip to any high altitude places, you are advised to take it easy and rest for the first two days. Comment, giving reasons.

10. संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है ? इससे वन-संरक्षण में किस प्रकार सहायता मिलती है ? 2

What is joint forest management ? How can it help in conservation of forests ?

खण्ड ग

SECTION C

11. मानव शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। 3

Draw a labelled diagram of a human sperm.

12. उल्लेखन क्या होता है ? इस पर वैधानिक प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है ? 3

What is amniocentesis ? Justify the statutory ban on it.

13. (a) निम्नलिखित स्थितियों में होने वाले मानव रोगों/विकारों के नाम बताइए :
- (i) फिनाइल ऐलानिन हाइड्रोलेज़ नामक एंजाइम के कूटन के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन हो जाए
 - (ii) 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति (कॉपी) विद्यमान हो
 - (iii) कैरियोटाइप (गुणसूत्र प्ररूप) XXY हो
- (b) ऊपर दिए गए प्रश्नों में नामित रोगों/विकारों का कोई एक लक्षण बताइए। 3

- (a) Name the kind of diseases/disorders that are likely to occur in humans if
- (i) mutation in the gene that codes for an enzyme phenyl alanine hydrolase occurs,
 - (ii) there is an extra copy of chromosome 21,
 - (iii) the karyotype is XXY.
- (b) Mention any one symptom of the diseases/disorders named above.

14. DNA-प्रतिकृतियन की अर्धसंरक्षी योजना के प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक को किस प्रकार प्रयुक्त किया गया ? 3

How was a heavy isotope of nitrogen used to provide experimental evidence to semi-conservative mode of DNA-replication ?

15. दो उदाहरणों की सहायता से अभिसारी विकास की व्याख्या कीजिए । 3

Explain convergent evolution with the help of two examples.

16. बायोगैस का निर्माण करने के लिए वाहित-मल का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है ? समझाकर बताइए । 3

How can sewage be used to generate biogas ? Explain.

17. वांछित जीन के बेसों को अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए उस जीन की अनेक प्रतियों की आवश्यकता होती है । इस वांछित जीन की बड़ी संख्या में प्रतियाँ तैयार करने में प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए । 3

Many copies of a specific gene of interest are required to study the detailed sequencing of bases in it. Name and explain the process that can help in developing large number of copies of this gene of interest.

18. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम EcoRI की क्रिया द्वारा पुनर्योजन DNA निर्माण को दर्शाने के लिए एक प्रवाह चार्ट बनाइए । 3

अथवा

DNA-खण्डों को पृथक करने में तथा जैवप्रौद्योगिकी के प्रयोगों के लिए उन्हें उपलब्ध कराने में प्रयुक्त तकनीक का नाम बताइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए । 3

Prepare a flow chart in formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme EcoRI.

OR

Name and explain the technique used for separating DNA fragments and making them available for biotechnology experiments.

19. जैवप्रौद्योगिकी का एक प्रमुख योगदान यह रहा है कि इससे पीड़कनाशी-प्रतिरोधी कपास के पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं । समझाकर बताइए कि यह किस प्रकार संभव किया जा सका । 3

One of the major contributions of biotechnology is to develop pest-resistant varieties of cotton plants. Explain how it has been made possible.

20. एक पारितंत्र में अपघटकों के महत्त्व का औचित्य बताइए । 3

Justify the importance of decomposers in an ecosystem.

21. सहोपकारिता (म्यूचुअलिज़्म), परजीविता और सहभोजिता के बीच अंतर बताइए । इनमें से प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए । 3

Differentiate between mutualism, parasitism and commensalism. Provide one example for each of them.

22. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से जैव-विविधता संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी और व्यापक रूप से उपयोगी तर्कों की तुलना कीजिए ।

3

Compare narrowly utilitarian and broadly utilitarian approaches to conserve biodiversity, with the help of suitable examples.

खण्ड घ

SECTION D

23. आप अपने सहपाठी द्वारा दी गयी जन्मदिन-पार्टी में शामिल हुए । वहाँ आपने देखा कि कुछ मेहमान एक कोने में बैठे काफ़ी शोर मचा रहे थे और किसी पदार्थ का सेवन कर रहे थे । थोड़ी देर बाद इस ग्रुप में से एक लड़का चीखने लगा, असामान्य व्यवहार करने लगा और वह पसीने से लथपथ हो गया । ज्ञात करने पर पता लगा कि ये लड़के मादक (नशीले) पदार्थ का सेवन कर रहे थे ।

- (a) क्या आप अपने माता-पिता/स्कूल के अधिकारियों को इस बात की सूचना देंगे ? हाँ/ना । अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कारण बताइए ।
- (b) किन्हीं दो नशीले पदार्थों के स्रोतों और उनसे होने वाली हानियों के बारे में एक नोट स्कूल के साथियों में बाँटने के लिए तैयार कीजिए ।
- (c) अपने स्कूल के प्रिंसिपल को किन्हीं दो विधियों का सुझाव दीजिए ताकि इन नशीले पदार्थों के प्रयोग किए जाने के खिलाफ नौजवानों में जागृति पैदा की जा सके ।

4

You have attended a birthday party hosted by one of your classmates. You found some guests at the party sitting in a corner making a lot of noise and consuming 'something'. After a while one of the boys from the group started screaming, behaving abnormally and sweating profusely. On enquiry you found that the group members were taking drugs.

- (a) Would you inform your parents/school authorities ? Yes/No. Give reasons in support of your answer.
- (b) Prepare a note to be circulated amongst the schoolmates about the sources and dangers of any two drugs.
- (c) Write any two ways that you will suggest to your school principal so as to promote awareness amongst the youth against the use of these drugs.

खण्ड ड

SECTION E

24. (a) ऐंजियोस्पर्मों में परागण के बाद से आरंभ करके बीज के निर्माण तक की घटनाओं की व्याख्या कीजिए ।
- (b) एक ऐल्बुमिनी बीज के विभिन्न भागों की कोशिकाओं के गुणसूत्रता-स्तर (सूत्रगुणता) का उल्लेख कीजिए ।

5

अथवा

मानवों में निषेचन और अंतरोपण प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए ।

5

- (a) Explain the events after pollination leading to the formation of a seed in angiosperms.
- (b) Mention the ploidy levels of the cells of different parts of an albuminous seed.

OR

Explain the process of fertilisation and implantation in humans.

25. (a) एक एकसंकर क्रॉस में मेंडेल द्वारा प्रस्तावित विसंयोजन नियम बताइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए ।
- (b) एक द्विसंकर क्रॉस में मेंडेलीय F_2 लक्षणप्ररूपी अनुपात को बताइए । इस अनुपात के आधार पर मेंडेल द्वारा प्रस्तावित नियम का उल्लेख कीजिए । यह नियम किस प्रकार विसंयोजन नियम से भिन्न है ?

5

अथवा

- (a) उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें “रूपांतरित सिद्धांत” का सुस्पष्टीकरण हुआ ।
- (b) एवरी, मैकलिओड और मैक्कार्टी ने उपर्युक्त “रूपांतरित सिद्धांत” के जैवसायन स्वरूप को किस प्रकार निर्धारित किया ?
- (a) State and explain the law of segregation as proposed by Mendel in a monohybrid cross.
- (b) Write the Mendelian F_2 phenotypic ratio in a dihybrid cross. State the law that he proposed on the basis of this ratio. How is this law different from the law of segregation ?

5

OR

- (a) Describe the experiment which demonstrated the existence of “transforming principle”.
- (b) How was the biochemical nature of this “transforming principle” determined by Avery, MacLeod and McCarty ?
26. पोलियो-निवारक कार्यक्रम के अंतर्गत, देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए नियमित अवधियों पर बड़े पैमाने पर बच्चों को पोलियो के टीके लगाए गए ।
- (a) टीका (वैक्सीन) क्या होता है ? समझाइए कि बच्चे में इससे किस प्रकार रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है ।
- (b) एक-एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर बताइए ।

5

अथवा

जैव-उर्वरक क्या होते हैं ? कृषि में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए । रासायनिक-उर्वरकों की अपेक्षा जैव-उर्वरकों को क्यों वरीयता दी जाती है ?

5

Under polio prevention programme, infants in India were given polio vaccines on a large scale at regular intervals to eradicate polio from the country.

- (a) What is a vaccine ? Explain how does it impart immunity to the child against the disease.
- (b) With the help of an example each, differentiate between active and passive immunity.

OR

What are biofertilizers ? Describe their role in agriculture. Why are they preferred to chemical fertilizers ?